



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2805]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 2805]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 31/2015-20

विषय : आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के अध्याय-13, क्रम सं० 89 के तहत ग्वार गम के निर्यात के लिए शर्तों में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3206(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार समय-समय पर यथा संशोधित आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012-अनुसूची 13 में क्रम सं० 89 में "प्रतिबंध के स्वरूप" में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन के पश्चात् आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012- अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 13 में क्रम सं० 89 के मामले में संशोधित तालिका निम्नानुसार होगी:—

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
89	1302 1302 32 20 1302 32 30	कि.ग्रा.	ग्वार गम रिफाईंड स्प्लिट ग्वारगम ट्रिटिड और पलवराइज्ड।	मुक्त	यूरोपीय संघ को पशु या मानव उपभोग के लिए भारत में उत्पन्न या भारत से भेजे जाने वाले ग्वार गम के निर्यात की अनुमति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् शैलाक एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् (शैफेक्सिल), कोलकाता के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अधीन होगा जिसके साथ निम्नलिखित एजेंसियों में से किसी के द्वारा जारी पेंटा क्लोरोफिनॉल (पी.सी.पी.) की जाँच की मूल विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
					<p>गया हो कि सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिए गए नमूने की जाँच में पी.सी.पी. की मात्रा प्रति कि०ग्रा० 0.01 मिलिग्राम से अधिक नहीं है:—</p> <p>(i) विम्टा लैब्स, हैदराबाद</p> <p>(ii) निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) लैब, चेन्नई</p>

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

विम्टा लैब्स, हैदराबाद के अलावा निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) लैब, चेन्नई को भी पेन्टा क्लोराफेनॉल (पीसीपी) की जांच की विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/265/एम. 9/निर्यात प्रकोष्ठ (खंड-II)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. 31/2015-20

Subject: Amendment in conditions for export of Guar Gum under Sl. No. 89, Chapter 13 of Schedule 2 of ITC(HS) - regarding.

S.O. 3206(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in the “Nature of Restriction” at Sl. No. 89 in Chapter 13 of ITC(HS) Classification 2012 – Schedule 2 (Export Policy), as amended from time to time:

The revised Table in respect of Sl. No. 89 in Chapter 13 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification 2012 – Schedule 2 (Export Policy), after amendment, will be as under:

S. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of Restriction
89	1302 1302 32 20 1302 32 30	Kg.	Guar gum refined split Guar gum treated and pulverized	Free	<p>Guar gum exports to European Union (EU), originating in or consigned from India and intended for animal or human consumption, allowed subject to issue of Health Certificate by authorized representative of Ministry of Commerce & Industry, Government of India i.e. Shellac & Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL), Kolkata accompanied by the original analytical report of testing of Penta Chlorophenol (PCP) issued by any of the following agencies certifying that product does not contain more than 0.01 mg per Kg of PCP on sampling done by the authorized representative of the competent authority:</p> <p>(i) Vimta Labs, Hyderabad</p> <p>(ii) Export Inspection Agency (EIA) Lab, Chennai</p>

2. Effect of this Public Notice:

In addition to Vimta Labs, Hyderabad, Export Inspection Agency (EIA) Lab, Chennai has also been authorised to issue the analytical report of testing of Penta Chlorophenol (PCP).

[F. No. 01/91/180/265/AM09/EC (Vol.II)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade